

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

पत्रांक: 14243X3
प्रेषक,

मुज०/दिनांक: 8/6/23

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर, पूर्वी-2

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
बिहार, पटना।

विषय: बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018 अनुरक्षण के तहत स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध आवंटन की मांग करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2022-23 नई अनुरक्षण नीति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुरक्षण मद में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार 36.51344 का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि किये गये अनुरक्षण कार्यों का भुगतान किया जा सके।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :- Muzaffarpur East-II

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requestion against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/MU/MU Z/23/0004	Neora Chowk to Sabtapur Kohi	31573190155 8	2181 / 20.10.2022	1.450	72.5000	36.51344	13.52431	MR(3054)/ MBD- 03/2023-24 20.04.2023	19.01.2024	05.06.2023	2029.00	25.00	5.020	0.00000	0.00000	36.51344	

36.51344


 Executive Engineer
 RWD Works Division
 Muzaffarpur East-II

Name of Customer : ADARSH KUMAR
 Name of Work/ Road : Neora Chowk to Sahajpur Kothi
 Lab Job number : 396
 Date : 02-06-2023
 Section No. : 14

Test Date : 02-06-2023
 Machine No : 396
 Start S No :
 Start E No :
 Weather :
 Start Location :
 End Location :
 Road Name : Neora Chowk to Sahajpur Kothi
 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Side :
 UIV Range : 667 To 4000 Interval 1000 mm/km
 Diet Range : 0 To 16
 Equation : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.989 \cdot X - 13.58$


Print
 Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\samard\Downloads\02061049.Xls, Section No. : 14, Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.989 \cdot X - 13.58$

Name of Customer : ADARSH KUMAR, Name of Work/ Road : Neora Chowk to Sahajpur Kothi, Lab Job number : 396



8/6/23
 [Signature]
 [Signature]

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UIV	TEGORY ROAD	IRI	Latitude	ongitude	Event
2/6/23	10:43:0	14	0.1	210	0	2100	2063 G	2.88	26.22552	85.38529	Normal	
2/6/23	10:43:0	14	0.1	200	20.2	2000	1964 G	2.76	26.22643	85.38557	Normal	
2/6/23	10:43:15	14	0.1	170	20.2	1700	1667 G	2.38	26.2273	85.38594	Normal	
2/6/23	10:43:15	14	0.1	180	20.2	1800	1766 G	2.51	26.22815	85.38625	Normal	
2/6/23	10:43:50	14	0.1	240	20.2	2400	2360 G	3.25	26.22906	85.38643	Culvert	
2/6/23	10:44:0	14	0.1	240	20.2	2400	2360 G	3.25	26.22994	85.38663	Normal	
2/6/23	10:44:25	14	0.1	260	20.2	2600	2557 G	3.49	26.23086	85.38673	Normal	
2/6/23	10:44:25	14	0.1	170	20.2	1700	1667 G	2.38	26.23174	85.38692	Normal	
2/6/23	10:45:0	14	0.1	180	10.1	1800	1766 G	2.51	26.23267	85.38709	Normal	
2/6/23	10:45:0	14	0.1	210	10.1	2100	2063 G	2.88	26.23355	85.38729	Normal	
2/6/23	10:45:36	14	0.1	210	20.2	2100	2063 G	2.88	26.23442	85.38739	Normal	
2/6/23	10:46:0	14	0.1	180	20.2	1800	1766 G	2.51	26.23526	85.38768	Normal	
2/6/23	10:46:11	14	0.1	190	30.3	1900	1865 G	2.63	26.2361	85.38801	Normal	
2/6/23	10:46:11	14	0.1	240	30.3	2400	2360 G	3.25	26.23697	85.38838	Normal	
2/6/23	10:49:0	14	0.05	110	0	2200	2162 G	3	26.23748	85.38822	Normal	
AVERAGE												
2029												

$$Y = 0 * X^2 + 0.989 * X - 13.58$$

$$X = 2200$$

$$Y = 2162$$

(R) RURAL ROAD
 Good Average Poor
 <4000 4001-5000 >5001

8/10/23
 AM


Signature
 B. L. Singh


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Neora Chowk to Sahajpur Kothi, Project ID-315731901558 का सभी अवयवों की जाँच शत प्रतिशत कनीय अभियंता द्वारा किया गया है।
सहायक अभियंता, द्वारा सभी अवयवों की 50 प्रतिशत से अधिक जाँच किया गया है।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा 10 प्रतिशत अवयवों की जाँच की गई है।

कनीय अभियंता


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी-2

FORM GFR 19-A

Form of utilisation Certification up to month of Mar-2023

MR3054(CFMS)

RWD, Works Division, Muzaffarpur East-II

SL. NO.	Name of Scheme	Sanction No & Date with Amount (In Rs.)	Amount Received (In Rs.)	Particulars
1.	Construction of Rural Road under MR3054 (CFMS)	Secretary cum Empowered officer B.R.R.D.A Letter No.- Dated	Opening Balance- Rs. 114,70,71,978.00 Rs. + 0.00 Rs. 114,70,71,978.00 Rs.- 113,72,41,500.00 Rs. 98,30,478.00	Certified that out of Rs. 114,70,71,978.00 of grant in aid received during the Year 2021-2022 in favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Muzaffarpur East-II. A sum of Rs. 113,72,41,500.00 has been utilized for the purpose of MR3054 (CFMS) schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 98,30,478.00 remaining unutilized at the end of the period under.
		Total	Rs. 114,70,71,978.00	

2. Certified that I have satisfied that the conditions on which the grants-in aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised:-

- I. Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- II. Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- III. Construction material has been tested.
- IV. Measurements have been recorded in the MBS and test check conducted by the Assistant Engineer/Executive Engineer.
- V. All other codal formalities have been observed.

3. Physical progress achieved:

- i. Construction of Road Works.
- ii. Construction of CD Works.


Executive Engineer

RWD, Works Division
Muzaffarpur East-2